



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1204) पटना, मंगलवार, 8 जुलाई 2025

सं० 7 / स्था0 (अ0नि0)-2-03 / 2023-3724
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

संकल्प

7 जुलाई 2025

विषय:- बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा के निरीक्षक मद्यनिषेध को उत्क्रमित वेतनमान पी0बी0-2+ग्रेड-पे 4600/-में दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

विभागीय अधिसूचना संख्या-3248 दिनांक 28.07.2017 द्वारा अधिसूचित बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017 एवं अधिसूचना संख्या-3214 दिनांक 18.09.2018 द्वारा अधिसूचित बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2018 निर्गत किया गया है। जिसमें बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा के पद सोपान में 1. मद्यनिषेध सिपाही (मूल कोटि), 2. सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध (प्रथम प्रोन्नति स्तर), 3. अवर निरीक्षक मद्यनिषेध (द्वितीय प्रोन्नति स्तर) एवं 4. निरीक्षक मद्यनिषेध (तृतीय प्रोन्नति स्तर) है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-4921 दिनांक 22.09.2023 द्वारा बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग मद्यनिषेध सिपाही, सहायक अवर निरीक्षक मद्यनिषेध एवं अवर निरीक्षक मद्यनिषेध के लिए उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पी0बी0-1+ग्रेड पे-2000/-, पी0बी0-1+ग्रेड पे-2800/- एवं पी0बी0-2+ ग्रेड पे-4200/- दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक 21.01.2010 के प्रभाव से वास्तविक लाभ सहित अनुमान्य किया गया है।

3. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-8630 दिनांक 17.09.2014 के द्वारा उत्पाद सिपाही एवं सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद का वेतनमान उत्पाद सिपाही संवर्ग नियमावली निर्गत होने के माह फरवरी, 2014 से उत्क्रमित करते हुए क्रमशः पी0बी0-1+2000/- एवं पी0बी0-1+2800/- संशोधित किया गया है तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3759 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा अवर निरीक्षक मद्यनिषेध का वेतनमान फरवरी, 2014 से पी0बी0-2+ग्रेड पे-4200/- निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को अवर निरीक्षक मद्यनिषेध का उच्चतर पद निरीक्षक मद्यनिषेध का वेतनमान भी समरूप पी0बी0-2+ग्रेड पे-4200/- था। सप्तम वेतन पुनरीक्षण में उक्त वेतन विसंगति को दूर करते हुए दिनांक 01.01.2016 से निरीक्षक मद्यनिषेध का अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0-2+ग्रेड पे-4600 निर्धारित करते हुए वेतन स्तर-7 अनुमान्य किया गया है।

4. बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के पदसोपानों के लिए स्वीकृत वेतन संरचना की स्थिति निम्नवत् है —

क्र०सं०	पद/सोपान	दि० 01.01.1996 से स्वीकृत वेतन संरचना	दि० 01.01.2006 से स्वीकृत वेतन संरचना	दि० 01.01.2016 से स्वीकृत वेतन संरचना
1	उत्पाद सिपाही	2610-3540	PB-1+2000/-	Level-3
2	सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद	3200-4900	PB-1+2800/-	Level-5
3	अवर निरीक्षक उत्पाद	4000-6000	PB-2+4200/-	Level-6
4	निरीक्षक उत्पाद	5000-8000	PB-2+4200/-	Level-7

इस प्रकार आलोच्य अवधि (दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2015) में अवर निरीक्षक उत्पाद के लिए दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से उत्क्रमित वेतनमान पी०बी०-2+4200/- स्वीकृत किया गया है, किन्तु अवर निरीक्षक उत्पाद के प्रोन्नति का पद निरीक्षक उत्पाद के वेतनमान पी०बी०-2+4200/- को उत्क्रमित नहीं किया जा सका है। फलतः दोनों पदसोपानों के लिए आलोच्य अवधि (दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2015 तक) में एक ही वेतनमान स्वीकृत हो गया है।

5. ऐसी स्थिति में बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा के प्रोन्नति के पद निरीक्षक उत्पाद का उत्क्रमित वेतनमान पी०बी०-2+4600/- का लाभ दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक रूप में तथा दिनांक 21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत करने का मामला विभाग के विचाराधीन है।

6. बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा के प्रोन्नति के पद निरीक्षक मद्यनिषेध को उत्क्रमित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक 21.01.2010 से वास्तविक लाभ दिये जाने के प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 03.06.2025 की बैठक में मद संख्या-29 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

7. उक्त के आलोक में बिहार मद्यनिषेध अवर सेवा के प्रोन्नति के पद निरीक्षक मद्यनिषेध का उत्क्रमित वेतनमान का लाभ 01.01.2006 से वैचारिक रूप में तथा दिनांक 21.01.2010 से वास्तविक लाभ निम्न रूप से स्वीकृत किया जाता है —

क्र०सं०	पदनाम	पुनरीक्षित वेतनमान
1	निरीक्षक मद्यनिषेध	पी०बी०-2+गेड पे-4600/-

8. उपर्युक्त वेतन संरचना के उत्क्रमण में फलस्वरूप होने वाला संभावित व्यय मुख्यशीर्ष-2039 राज्य उत्पाद शुल्क तथा मांग संख्या-38 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत विकलनीय होगा।

9. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1204-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>